

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2482]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936

No. 2482]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3077(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को डॉ. हर्ष वर्धन के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में दिनांक 13 जून, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या वी-16011/1/2014 – एमई-I में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः

“ 1. श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, नई दिल्ली।”

[फा.सं. वी-16011/1/2014-एम.ई.-I]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2014

S.O. 3077(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 4, read with sub-section (3) of Section 6, of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates, Shri Jagat Prakash Nadda, Minister of Health & Family Welfare to be a Member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in place of Dr. Harsh Vardhan and makes the following further amendment in the

notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V-16011/1/2014-ME-I, dated 13th June, 2014 published on 13th June, 2014 namely: -

In the said notification for the serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“1. Shri Jagat Prakash Nadda, Minister of Health & Family Welfare, New Delhi”.

[F.No. V-16011/1/2014 – ME-I]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3078 (अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) में भारत सरकार की दिनांक 13 जून, 2014 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को एतद्वारा उक्त संस्थान का अध्यक्ष मनोनीत करती है।

[फा.सं.वी. 16011/1/2014-एम.ई.-I]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2014

S.O. 3078(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare (Department of Health), dated 13th June, 2014, the Central Government hereby nominates Shri Jagat Prakash Nadda, Minister of Health & Family Welfare, a Member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi to be the President of the said Institute.

[F.No. V-16011/1/2014 - ME-I]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.